



## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2012             | 2013             |                  | घट – बढ़       |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                         | 21 सितम्बर       | 13 सितम्बर       | 20 सितम्बर       | सप्ताह         | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4              | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>10,954.99</b> | <b>12,060.74</b> | <b>11,992.50</b> | <b>-68.24</b>  | <b>1,037.50</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 10,954.84        | 12,060.60        | 11,992.41        | -68.19         | 1,037.57        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.15             | 0.13             | 0.08             | -0.05          | -0.07           |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.01             | 1.01             | 1.01             | —              | —               |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —              | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —              | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,182.61         | 3,563.62         | 3,206.48         | -357.14        | 23.87           |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 32.71            | 32.46            | 32.02            | -0.44          | -0.69           |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 151.01           | 154.46           | 155.27           | 0.81           | 4.26            |
| 2.7 अन्य                                | 121.80           | 185.50           | 181.60           | -3.90          | 59.79           |
| 3 अन्य देयताएं                          | 6,788.11         | 9,309.12         | 9,017.53         | -291.58        | 2,229.42        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>21,232.68</b> | <b>25,307.32</b> | <b>24,586.83</b> | <b>-720.50</b> | <b>3,354.15</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 14,113.60        | 15,837.59        | 15,576.79        | -260.81        | 1,463.19        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,462.06         | 1,446.26         | 1,446.26         | —              | -15.80          |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,355.18         | 7,239.68         | 6,786.07         | -453.61        | 1,430.89        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |                |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 6.27             | 1.80             | 11.60            | 9.80           | 5.33            |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 164.68           | 428.00           | 422.28           | -5.72          | 257.60          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.8 अन्य                                | 24.43            | 26.41            | 26.39            | -0.02          | 1.95            |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |                |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —              | —               |
| 5.2 खजाना                               | —                | —                | —                | —              | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —              | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 93.26            | 314.38           | 304.24           | -10.14         | 210.98          |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                      | 20 सितम्बर 2013 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                  |                |                  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                         |                    |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2013 की समाप्ति पर |                  | वर्ष           |                  |
|                                         | बिलियन ₹           | मिलि. अम. डॉलर   | बिलियन ₹                   | मिलि. अम. डॉलर | बिलियन ₹                 | मिलि. अम. डॉलर   | बिलियन ₹       | मिलि. अम. डॉलर   |
|                                         | 1                  | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6                | 7              | 8                |
| <b>1 कुल भंडार</b>                      | <b>17,359.2</b>    | <b>277,381.5</b> | <b>-265.7</b>              | <b>2,030.3</b> | <b>1,475.0</b>           | <b>-14,664.7</b> | <b>1,464.8</b> | <b>-16,592.9</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां              | 15,512.2           | 249,220.8        | -259.4                     | 1,974.6        | 1,385.9                  | -10,505.1        | 1,441.2        | -11,810.3        |
| 1.2 स्वर्ण                              | 1,446.3            | 21,724.1         | —                          | —              | 48.9                     | -3,967.9         | -15.8          | -4,515.3         |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                   | 275.4              | 4,423.9          | -4.3                       | 38.3           | 40.0                     | 96.3             | 35.0           | -36.5            |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति | 125.3              | 2,012.7          | -2.0                       | 17.4           | 0.2                      | -288.0           | 4.4            | -230.8           |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 20 सितम्बर 2013 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,013.8 बिलियन | 2013      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                             | 7 सितम्बर | 8 सितम्बर | 9 सितम्बर | 10 सितम्बर | 11 सितम्बर | 12 सितम्बर | 13 सितम्बर | 14 सितम्बर | 15 सितम्बर | 16 सितम्बर | 17 सितम्बर | 18 सितम्बर | 19 सितम्बर | 20 सितम्बर |
|                                                                                                             | 1         | 2         | 3         | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                | 3,252.4   | 3,252.4   | 3,242.2   | 3,200.7    | 3,192.2    | 3,192.2    | 3,563.8    | 3,618.0    | 3,306.6    | 3,236.0    | 3,199.9    | 3,184.0    | 3,179.7    | 3,206.6    |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                                | 107.9     | 107.9     | 107.6     | 106.2      | 105.9      | 105.9      | 118.2      | 120.0      | 109.7      | 107.4      | 106.2      | 105.6      | 105.5      | 106.4      |

# 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                            | 6 सितम्बर 2013 को बकाया | निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                         | पखवाड़ा                       | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                         |                               | 2012-2013            | 2013-2014      | 2012           | 2013           |
|                                               | 1                       | 2                             | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>     |                         |                               |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां       | 687.6                   | 14.2                          | -75.9                | -159.0         | 82.7           | -79.1          |
| 1.2 बैंकों से उधार                            | 289.0                   | -24.0                         | -40.9                | -104.6         | -5.3           | 10.7           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 80.3                    | 14.1                          | 8.3                  | -10.6          | -32.1          | 10.6           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                |                         |                               |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 71,737.2                | 607.0                         | 4,184.0              | 4,232.7        | 7,999.5        | 8,462.4        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                        |                         | 0.9                           | 7.1                  | 6.3            | 14.5           | 13.4           |
| 2.1.1.1 मांग                                  | 6,548.1                 | 6.9                           | -365.2               | -74.9          | 384.2          | 660.0          |
| 2.1.1.2 मीयादी                                | 65,189.1                | 600.0                         | 4,549.2              | 4,307.6        | 7,615.2        | 7,802.4        |
| 2.2 उधार                                      | 2,665.1                 | -31.8                         | -80.7                | 448.5          | 313.5          | 681.3          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 4,256.2                 | 293.7                         | 91.4                 | 139.9          | 166.4          | 430.9          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                 | <b>364.8</b>            | <b>-51.9</b>                  | <b>-51.3</b>         | <b>148.9</b>   | <b>28.1</b>    | <b>328.5</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष</b> | <b>3,725.4</b>          | <b>91.9</b>                   | <b>-30.7</b>         | <b>497.8</b>   | <b>-395.8</b>  | <b>162.1</b>   |
| 4.1 पास में नकदी                              | 420.3                   | -19.5                         | 31.0                 | 15.4           | 42.1           | 28.0           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष               | 3,305.1                 | 111.4                         | -61.8                | 482.4          | -437.9         | 134.2          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>      |                         |                               |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                    | 1,017.7                 | -55.9                         | 93.8                 | 56.9           | 281.8          | 217.4          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि        | 170.3                   | -14.6                         | 14.5                 | -125.7         | 20.8           | -76.9          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                          | 132.6                   | 6.4                           | -48.9                | 5.7            | 16.0           | 45.6           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                             | 537.0                   | -21.9                         | -43.4                | -278.8         | -32.9          | -123.5         |
| <b>6 निवेश</b>                                | <b>21,474.0</b>         | <b>-89.6</b>                  | <b>2,422.8</b>       | <b>1,412.9</b> | <b>2,692.9</b> | <b>1,673.3</b> |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                        |                         | -0.4                          | 13.9                 | 7.0            | 15.7           | 8.5            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                   | 21,449.9                | -89.9                         | 2,423.6              | 1,413.3        | 2,705.8        | 1,676.1        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में            | 24.1                    | 0.2                           | -0.8                 | -0.4           | -12.9          | -2.8           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>56,132.5</b>         | <b>837.7</b>                  | <b>1,380.7</b>       | <b>3,527.9</b> | <b>6,747.2</b> | <b>8,633.3</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                        |                         | 1.5                           | 3.0                  | 6.7            | 16.6           | 18.2           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 1,014.3                 | -8.8                          | 134.0                | 50.1           | 212.9          | 67.3           |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 55,118.2                | 846.5                         | 1,246.7              | 3,477.9        | 6,534.4        | 8,566.1        |
| 7 ख.1 ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट           | 54,071.0                | 804.5                         | 1,380.7              | 3,479.2        | 6,452.6        | 8,330.4        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                       | 292.2                   | 18.8                          | 28.0                 | 43.5           | 76.5           | 100.8          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                | 1,048.2                 | 9.5                           | 3.0                  | -46.3          | 168.1          | 65.5           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                     | 241.5                   | 9.1                           | -16.5                | 26.5           | 21.9           | 46.3           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                | 479.7                   | -4.2                          | -14.5                | 24.9           | 28.1           | 90.3           |

# 5. अनुपात और दर

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2012       | 2013       |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                     | 21 सितम्बर | 23 अगस्त   | 30 अगस्त   | 6 सितम्बर  | 13 सितम्बर | 20 सितम्बर |
|                                                     | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.75       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 5.71       | 5.11       | ..         | 5.19       | ..         | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 75.71      | 77.74      | ..         | 78.25      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 39.65      | 74.2       | ..         | 83.35      | ..         | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 30.96      | 30.32      | ..         | 29.93      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 54.81      | 41.44      | ..         | 33.38      | ..         | ..         |
| <b>दर</b>                                           |            |            |            |            |            |            |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 8.00       | 7.25       | 7.25       | 7.25       | 7.25       | 7.50       |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 7.00       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.50       |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 9.00       | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 9.50       |
| बैंक दर                                             | 9.00       | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 9.50       |
| आधार दर                                             | 9.75/10.50 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.80/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 8.50/9.25  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 8.02       | 10.21      | 10.23      | 10.10      | 10.38      | 10.29      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.10       | 11.05      | 12.02      | 11.26      | 10.66      | 10.45      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..         | 12.01      | ..         | 10.20      | ..         |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.06       | 9.94       | ..         | 9.89       | ..         | 9.46       |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.17       | 8.14       | 8.60       | 8.63       | 8.49       | 8.58       |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमियम</b>       |            |            |            |            |            |            |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 53.91      | 64.69      | 66.57      | 65.96      | 63.79      | 62.24      |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 70.01      | 86.3       | 88.16      | 86.58      | 84.67      | 84.23      |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमियम 1-माह              | 6.57       | 10.02      | 10.09      | 10.01      | 10.44      | 9.93       |
| 3-माह                                               | 6.46       | 9.18       | 9.16       | 9.19       | 9.91       | 9.22       |
| 6-माह                                               | 6.05       | 8.12       | 7.62       | 7.90       | 8.90       | 8.44       |

## 6. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                    | 2013           |           | पखवाड़ा                   |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                    |                |           |                           |      | 2012-2013            |       | 2013-2014 |       | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 6 सितम्बर | राशि                      | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                    | 1              | 2         | 3                         | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10    | 11      | 12    |
| एम३                                                | 83,820.2       | 88,356.7  | 614.5                     | 0.7  | 4,854.6              | 6.6   | 4,536.5   | 5.4   | 9,738.3      | 14.2  | 9,853.7 | 12.6  |
| 1 घटक                                              |                |           |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 11,447.4       | 11,644.5  | 8.6                       | 0.1  | 429.2                | 4.2   | 197.0     | 1.7   | 1,142.1      | 12.0  | 988.7   | 9.3   |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा                         | 7,469.6        | 7,392.6   | 9.2                       | 0.1  | -394.8               | -5.6  | -76.9     | -1.0  | 435.9        | 6.9   | 677.7   | 10.1  |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा                       | 64,870.9       | 69,235.0  | 605.8                     | 0.9  | 4,833.7              | 8.6   | 4,364.1   | 6.7   | 8,170.9      | 15.4  | 8,117.4 | 13.3  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                 | 32.4           | 84.7      | -9.1                      | -9.7 | -13.5                | -47.9 | 52.3      | 161.3 | -10.6        | -41.9 | 69.9    | 475.3 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |           |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 27,072.1       | 29,489.5  | 195.6                     | 0.7  | 2,565.1              | 10.8  | 2,417.4   | 8.9   | 4,476.2      | 20.5  | 3,207.5 | 12.2  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 5,905.8        | 6,856.4   | 279.3                     |      | 68.6                 |       | 950.6     |       | 1,654.5      |       | 1,430.4 |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 21,166.3       | 22,633.1  | -83.7                     | -0.4 | 2,496.4              | 13.6  | 1,466.8   | 6.9   | 2,821.7      | 15.6  | 1,777.1 | 8.5   |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 56,646.6       | 60,199.7  | 839.6                     | 1.4  | 1,712.2              | 3.5   | 3,553.1   | 6.3   | 7,367.6      | 16.8  | 8,903.1 | 17.4  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 30.6           | 37.8      | -0.5                      |      | -1.0                 |       | 7.2       |       | 23.8         |       | -0.8    |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 56,616.1       | 60,162.0  | 840.0                     | 1.4  | 1,713.2              | 3.5   | 3,545.9   | 6.3   | 7,343.8      | 16.7  | 8,903.9 | 17.4  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 16,366.6       | 18,575.2  | 251.5                     | 1.4  | 967.5                | 6.3   | 2,208.7   | 13.5  | 1,657.4      | 11.2  | 2,170.0 | 13.2  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 153.4          | 157.2     | —                         | —    | 7.7                  | 5.7   | 3.8       | 2.5   | 17.4         | 13.9  | 15.0    | 10.6  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 16,418.5       | 20,064.9  | 672.2                     | 3.5  | 397.9                | 2.6   | 3,646.5   | 22.2  | 3,780.4      | 31.9  | 4,441.8 | 28.4  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 6,925.0        | 9,507.3   | 384.5                     | 4.2  | 1,028.6              | 17.0  | 2,582.3   | 37.3  | 2,561.4      | 56.9  | 2,440.4 | 34.5  |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |            | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                                  | 2013           |            | सप्ताह                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                                  |                |            |                           |      | 2012-2013            |       | 2013-2014 |       | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 20 सितम्बर | राशि                      | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                                  | 1              | 2          | 3                         | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10    | 11      | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 15,148.9       | 15,623.3   | -428.9                    | -2.7 | 218.1                | 1.5   | 474.5     | 3.1   | 934.8        | 6.9   | 1,141.8 | 7.9   |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |            |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 11,909.8       | 12,149.6   | -68.2                     | -0.6 | 426.3                | 4.0   | 239.8     | 2.0   | 1,277.1      | 13.0  | 1,051.0 | 9.5   |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा                              | 3,206.7        | 3,393.8    | -356.8                    | -9.5 | -196.6               | -5.5  | 187.1     | 5.8   | -335.8       | -9.1  | 27.4    | 0.8   |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                               | 32.4           | 80.0       | -3.9                      | -4.7 | -11.6                | -41.0 | 47.6      | 146.8 | -6.5         | -28.0 | 63.3    | 380.0 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |            |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 5,905.8        | 6,798.1    | -444.2                    |      | 4.7                  |       | 892.4     |       | 1,795.4      |       | 1,436.1 |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 5,905.0        | 6,787.0    | -454.0                    |      | 12.1                 |       | 882.0     |       | 1,793.7      |       | 1,430.8 |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 434.1          | 461.7      | -5.7                      |      | 114.0                |       | 27.5      |       | 157.3        |       | 259.6   |       |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 403.5          | 423.9      | -5.7                      |      | 117.5                |       | 20.3      |       | 138.9        |       | 257.9   |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 15,580.6       | 17,022.6   | -260.8                    | -1.5 | 853.5                | 5.8   | 1,442.0   | 9.3   | 498.1        | 3.3   | 1,447.2 | 9.3   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 153.4          | 157.2      | —                         | —    | 9.3                  | 6.9   | 3.8       | 2.5   | 18.9         | 15.1  | 13.5    | 9.4   |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 6,925.0        | 8,816.3    | -281.9                    | -3.1 | 763.3                | 12.6  | 1,891.2   | 27.3  | 1,534.9      | 29.1  | 2,014.5 | 29.6  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ बिलियन)

| दिनांक          | चलनिधि समायोजन सुविधा |             | एमएसएफ   | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (तत्काल) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+4+6-2-5) |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|
|                 | रिपो                  | रिवर्स रिपो |          |                      | विक्रय        | क्रय |                                                     |
|                 | 1                     | 2           |          |                      | 5             | 6    |                                                     |
| 14 सितम्बर 2013 | —                     | —           | 247.50   | —                    | —             | —    | 247.50                                              |
| 16 सितम्बर 2013 | 399.33                | 0.13        | 1,426.81 | 45.32                | —             | —    | 1,871.33                                            |
| 17 सितम्बर 2013 | 398.68                | 0.08        | 892.25   | —                    | —             | —    | 1,290.85                                            |
| 18 सितम्बर 2013 | 399.23                | 1.07        | 817.72   | —                    | —             | —    | 1,215.88                                            |
| 19 सितम्बर 2013 | 400.36                | 0.32        | 810.84   | -1.50                | —             | —    | 1,209.38                                            |
| 20 सितम्बर 2013 | 390.26                | 0.34        | 756.78   | -49.52               | —             | —    | 1,097.18                                            |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2012         |              | 2013         |              | प्रतिशत अंतर |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                                                     | जुलाई        | अगस्त        | जुलाई        | अगस्त        | माह          | मार्च      | वर्ष       |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6          | 7          |
| <b>1 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>165.8</b> | <b>167.3</b> | <b>175.4</b> | <b>177.5</b> | <b>1.2</b>   | <b>4.4</b> | <b>6.1</b> |
| 1.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 219.1        | 221.8        | 238.8        | 247.8        | 3.8          | 11.1       | 11.7       |
| 1.2 ईंधन और बिजली                                                   | 179.5        | 181.7        | 199.8        | 202.3        | 1.3          | 5.6        | 11.3       |
| 1.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 146.1        | 147.2        | 150.2        | 150.0        | - 0.1        | 0.9        | 1.9        |
| <b>2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>121.4</b> | <b>122.9</b> | <b>133.1</b> | <b>134.6</b> | <b>1.1</b>   | <b>5.6</b> | <b>9.5</b> |
| 2.1 ग्रामीण                                                         | 122.6        | 124.3        | 133.8        | 135.4        | 1.2          | 5.5        | 8.9        |
| 2.2 शहरी                                                            | 119.9        | 121.1        | 132.1        | 133.6        | 1.1          | 5.6        | 10.3       |
| <b>3 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>212.0</b> | <b>214.0</b> | <b>235.0</b> | <b>..</b>    | <b>..</b>    | <b>..</b>  | <b>..</b>  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 9 अगस्त 2013   | 3,224.5                  | 44.3                    | 9.41 - 11.20          |
| 23 अगस्त 2013  | 3,110.6                  | 87.8                    | 9.64 - 11.70          |

## 11. वाणिज्यिक पेपर

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                        |
| 15 अगस्त 2013  | 1,363.4                  | 83.9                    | 7.82 - 12.84             |
| 31 अगस्त 2013  | 1,182.9                  | 97.6                    | 9.50 - 14.31             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह   |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | 21 सितम्बर 2012 | 13 सितम्बर 2013 | 20 सितम्बर 2013 |
|                          | 1               | 2               | 3               |
| 1 मांग मुद्रा            | 254.1           | 185.9           | 191.9           |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 86.1            | 51.1            | 62.2            |
| 3 सीबीएलओ                | 773.4           | 1,339.2         | 1,325.2         |
| 4 बाजार रिपो             | 680.4           | 908.8           | 1,123.6         |
| 5 कारपोरेट बांड में रिपो | —               | —               | —               |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 20 सितम्बर 2013 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|--------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                    | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                    | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय          | —           | —                 | 530.3         | 537.1   |
| 91-दिवसीय          | 309.6       | 260.6             | 585.7         | 1,490.0 |
| 182-दिवसीय         | 213.4       | 209.9             | 4.0           | 605.2   |
| 364-दिवसीय         | 253.6       | 510.9             | 6.9           | 1,310.1 |
| सीएमबी             | 141.9       | 104.4             | —             | 520.0   |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई समग्र राशि             |                                 |         | जुटाई गई निवल राशि              |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
|                  | 2013-14<br>(20 सितम्बर 2013 तक) | 2012-13<br>(21 सितम्बर 2012 तक) | 2012-13 | 2013-14<br>(20 सितम्बर 2013 तक) | 2012-13<br>(21 सितम्बर 2012 तक) | 2012-13 |
|                  | 1                               | 2                               | 3       | 4                               | 5                               | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 3,140.0                         | 3,400.0                         | 5,580.0 | 2,392.7                         | 2,543.8                         | 4,673.8 |
| 2. राज्य सरकारें | 688.5                           | 741.8                           | 1,772.8 | 374.6                           | 637.9                           | 1,466.5 |

स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 950 तथा विदेश में 45 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।